



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939

No. 133]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017

सं. 115

सं.ईपी-7(1)/2016—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37वां) की धारा-45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा आरंभ:

- (i) ये विनियम, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 कहे जाएंगे।
- (ii) ये सरकारी गजट में अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा: इस विनियम में शब्दों की परिभाषा और उनका अर्थ तथा पदों के पदनाम का अर्थ वहीं होगा जैसा कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 तथा भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में दिया गया है।

3. निम्नलिखित नोट भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 (परिशिष्ट -I) के पार्ट I में सभी संवर्गों/पदों के प्रति टिप्पणी कॉलम में शामिल किया जाएगा:-

"कर्मचारियों या उनके पति/पत्नी/पारिवारिक सदस्यों इत्यादि द्वारा बनाई गई एसोसिएशन/गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा ठेकेदारों, विक्रेताओं, ग्राहकों अथवा अन्य व्यक्तियों से जिनके भारतीय खाद्य निगम के साथ वाणिज्यिक संबंध है सरकारी डीलिंग करते हैं, उनसे दान/विज्ञापन/स्पॉन्सरशिप इत्यादि प्राप्त करने को कदाचार माना जाएगा।"

के. दमयंती, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./480/16]

टिप्पणी : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 08.05.1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे तथा तदनु रूप अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किये गए।

क्र. सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृन्द) (पहला संशोधन) विनियम, 2007	15.05.2007
2.	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृन्द) (पहला संशोधन) विनियम, 2009	14.02.2009
3.	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृन्द) (पहला संशोधन) विनियम, 2010	20.03.2010
4.	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृन्द) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010	16.07.2010
5.	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृन्द) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2010	20.07.2010
6.	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृन्द) (चौथा संशोधन) विनियम, 2010	23.11.2010
7.	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृन्द) (पहला संशोधन) विनियम, 2011	13.04.2011
8.	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृन्द) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011	24.06.2011
9.	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृन्द) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2011	24.06.2011
10.	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृन्द) (पहला संशोधन) विनियम, 2013	27.06.2013
11.	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृन्द) (पहला संशोधन) विनियम, 2014	16.07.2014
12.	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृन्द) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014	16.07.2014
13.	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृन्द) (पहला संशोधन) विनियम, 2015	06.04.2015
14.	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृन्द) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015	29.05.2015
15.	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृन्द) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015	13.07.2015
16.	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृन्द) (पहला संशोधन) विनियम, 2016	27.04.2016
17.	भा.खा.नि., (कर्मचारीवृन्द) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016	01.08.2016

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2017

No. 115

No. EP-7(1)2016.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely:-

1. Short Title and Commencement:

- (i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (Second Amendment) Regulations, 2017
- (ii) These shall come into force from the date of Notification in the Official Gazette.

2. Definitions: The definition and meaning of the words and designation of posts in this Regulations shall have the same meaning as contained in the Food Corporations Act, 1964 and the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971.

3. The following provision shall be inserted in the section – 4 Conduct Regulation as Regulation 43 – A of Food Corporation of India (Staff), Regulations, 1971:-

“Obtaining donations/advertisement/sponsorship etc. by association/NGO’s formed by either employees or their spouse/family members etc. from the contractors, vendors, customers or other persons having commercial relationship/officials dealing with FCI will be treated as misconduct”

K. DAMYANTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Extty./480/16]

Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 8-5-1971 and subsequently have been amended being lastly vide:-

Sl. No.	Title	Dated
1.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2007	15.05.2007
2.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2009	14.09.2009
3.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2010	20.03.2010
4.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2010	16.07.2010
5.	FCI (Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2010	20.07.2010
6.	FCI (Staff) (4th Amendment) Regulations, 2010	23.11.2010
7.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2011	13.04.2011
8.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2011	24.06.2011
9.	FCI (Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2011	24.06.2011
10.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2013	27.06.2013
11.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2014	16.07.2014
12.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2014	16.07.2014
13.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2015	06.04.2015
14.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2015	29.05.2015
15.	FCI (Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2015	13.07.2015
16.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2016	27.04.2016
17.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2016	01.08.2016